

# **MP Police Constable**

Previous Year Paper  
13 Aug, 2023 Shift 3

mpcareer.com



View Your Responses/  
अपनी प्रतिक्रियाओं देखें

Complain About Question/  
सवाल के बारे में शिकायत करें

View Complained Questions/  
शिकायती प्रश्न देखें

Payment /  
भुगतान

Roll No.

Candidate Name

Paper Name

: Non-Technical

Test Date

:08/13/2023

Test Time

:Shift - 3

Center

Correct Option selected Wrong Option selected or Not Answered Correct Option

Q.No: 1 Hawala is \_\_\_\_\_ .

- A Tax evasion  
B Illegal trade of exchange of forex currency  
C Illegal exchange of securities in share market  
D Whole knowledge about a subject

हवाला \_\_\_\_\_ है।

- कर चोरी  
विदेशी मुद्रा के विनिमय का अवैध व्यापार  
शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध विनिमय  
किसी विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान

Q.No: 2 Which of the following pair is not correctly matched ?

- A RTGS - Real Time Gross Settlement  
B NEFT - National Electronic Funds Transfer  
C ECS - Electronic Capital System  
D IFSC - Indian Financial System Code

निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

- RTGS - रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट  
NEFT - नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर  
ECS - इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल सिस्टम  
IFSC - इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड

Q.No: 3 When was the Bank of Hindustan established?

- A 1777  
B 1711  
C 1775  
D 1770

बैंक ऑफ़ हिन्दुस्तान की स्थापना कब की गई थी ?

- 1777  
1711  
1775  
1770

Q.No: 4 For how many days transactions are done under the call money market (call money market)?

- A For 1 day  
B For more than 30 days  
C For 15 to 30 days  
D For 2 to 14 days

कॉल मनी मार्केट ( मांग मुद्रा बाजार ) के तहत कितने दिनों का लेनदेन किया जात

- 1 दिन के लिए  
30 से अधिक दिनों के लिए  
15 से 30 दिनों के लिए  
2 से 14 दिनों के लिए

Q.No: 5 \_\_\_\_\_ was earlier known as 'DasiAttam'.

- A Kathak  
B Bharatnatyam  
C Kuchipudi  
D Kathakali

\_\_\_\_\_ को पहले 'दासी अट्टम' के नाम से जाना जाता था।

- कथक  
भरतनाट्यम  
कुचिपुड़ी  
कथकली

Q.No: 6 Which of the following personalities received the Bharat Ratna award one year after her/his death in 1997?

- A Mohammad Ali  
B Aruna Asaf Ali  
C Dr APJ Abdul Kalam  
D Lal Bahadur Shastri

निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1997 में उनकी मृत्यु के एक साल बाद भारत र

- मोहम्मद अली  
अरुणा आसफ अली  
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम  
लालबहादुर शास्त्री

Q.No: 7 Bardo Chham, in which the performers wear masks representing different animals, is the dance of which Indian state?

- A Jharkhand  
B Assam  
C Arunachal Pradesh

बार्डोछम, जिसमें कलाकार विभिन्न जानवरों का प्रतिनिधित्व करते हुए मुखौटे पहनते

- झारखंड  
असम  
अरुणाचल प्रदेश

Q.No: 8 The incorrect statement about the Bahamani Kingdom is \_\_\_\_\_.

- A **The Kingdom was founded by Kinchit shah.**  
 B **Firuz shah became the sultan in 1397.**  
 C **Firuz Shah Bahmani induced Hindus in the administration on a large scale.**  
 D **The Bahmani Kingdom came to existence in 1347.**

बहमनी साम्राज्य के बारे में गलत कथन \_\_\_\_\_ है।

साम्राज्य की स्थापना किंचित शाह ने की थी।  
 फिरोज शाह 1397 में सुल्तान बना  
 फिरोज शाह बहमनी ने बड़े पैमाने पर प्रशासन में हिंदुओं को प्रेरित किया।  
 बहमनी साम्राज्य 1347 में अस्तित्व में आया।

Q.No: 9 Charba folk dance is related to which of the following states?

- A **Gujarat**  
 B **Uttarakhand**  
 C **Himachal Pradesh**  
 D **Uttar Pradesh**

चारबा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?

गुजरात  
 उत्तराखंड  
 हिमाचल प्रदेश  
 उत्तर प्रदेश

Q.No: 10 Which of the following dances is not associated with ASSAM ?

- A **Bihu**  
 B **Satriya**  
 C **Bhangra**  
 D **Bagurumba**

निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित नहीं है?

बिहु  
 सत्रिया  
 भंगड़ा  
 बगुरुंबा

Q.No: 11 Select the wrong statement regarding Guru Gobind Singh?

- A **He believed in equality of all religions.**  
 B **He named Adi Grantha as "Guru Grantha Sahib".**  
 C **He announced the end of personal Guruship.**  
 D **He was the 11th Sikh Guru.**

गुरु गोबिंद सिंह के संबंध में गलत कथन का चयन करें?

वह सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे।  
 उन्होंने आदि ग्रंथ का नाम "गुरु ग्रंथ साहिब" रखा  
 उन्होंने व्यक्तिगत गुरुत्व की समाप्ति की घोषणा की  
 वह 11वें सिख गुरु थे

Q.No: 12 Gidda dance is related to which of the following states?

- A **Haryana**  
 B **Punjab**  
 C **Uttar Pradesh**  
 D **Rajasthan**

गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?

हरियाणा  
 पंजाब  
 उत्तर प्रदेश  
 राजस्थान

Q.No: 13 The first Invasion of Muhammad Ghori was in \_\_\_\_\_ when he attacked Multan.

- A **1185 A.D.**  
 B **1175 A.D.**  
 C **1178 A.D.**  
 D **1183 A.D.**

मुहम्मद गोरी का पहला आक्रमण \_\_\_\_\_ में हुआ था जब उसने मुल्तान पर

1185 ई.  
 1175 ई.  
 1178 ई.  
 1183 ई.

Q.No: 14 In which of the following years, battle of Buxar was fought?

- A **1765**  
 B **1760**  
 C **1764**  
 D **1761**

बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था?

1765  
 1760  
 1764  
 1761

Q.No: 15 Who is the author of the book 'The little book of encouragement'?

- A **Ruskin Bond**  
 B **Annie Zaidi**  
 C **Hunter Biden**  
 D **Dalai Lama**

पुस्तक 'द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट' के लेखक कौन हैं?

रस्किन बांड  
 एनी जैदी  
 हंटर बिडेन  
 दलाई लामा

Q.No: 16 Who has been appointed as the first woman chairperson of NASSCOM?

- A **Rekha Menon**  
 B **Suman Chakraborty**  
 C **Vandana Sharma**

नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

रेखा मेनन  
 सुमन चक्रवर्ती  
 वन्दना शर्मा

D Sophia Qureshi

सोफिया कुरेशी

Q.No: 17 Which is the largest river system of Rajasthan, west of Aravali?

- A Sabarmati
- B Tapti
- C Kali Sindh
- D Luni

अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है?

- साबरमती
- ताप्ती
- काली सिंधी
- लूनी

Q.No: 18 Who was honoured with the medal 'Kaisar-i-Hind' for her work during the plague epidemic in India?

- A Indira Gandhi
- B Tarabai Shinde
- C Sarojini Naidu
- D Annie Besant

भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम के लिए 'कैसर-ए-हिंद' पदक से कि

- इंदिरा गांधी
- ताराबाई शिंदे
- सरोजिनी नायडू
- एनी बेसेंट

Q.No: 19 From which state does the Kaveri river originate?

- A Kerala
- B Maharashtra
- C Tamil Nadu
- D Karnataka

कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है ?

- केरल
- महाराष्ट्र
- तमिलनाडु
- कर्नाटक

Q.No: 20 Which of the following facts related to the Himalayan Mountain is not true?

- A Himalayan mountain width varies from 400 Km in Arunachal Pradesh to 150 Km in Kashmir.
- B Himalayan Mountain represents the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world.
- C Himalayan mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra.
- D The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri.

हिमालय पर्वत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है?

- हिमालय पर्वत की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 400 किमी से लेकर कश्मीर में
- हिमालय पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ऊबड़-खाबड़ पर्वतीय अवरोध
- हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम-पूर्व दिशा में फैली हु
- सबसे उत्तरी श्रेणी को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना

Match the following:

Q.No: 21

1	Angiosperm	a	Vascular bundle absent.
2	Gymnosperm	b	Vascular bundle present
3	Pteridophytes	C	True seeds present

- A 1-b, 2-c, 3-a
- B 1-c, 2-a, 3-a
- C 1-c, 2-b, 3-a
- D 1-a, 2-b, 3-c

उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। अतः पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की स  
निम्नलिखित को मिलाएं:

1	एंजियोस्पर्म	a	संवहनी बंडल अनुपस्थित
2	जिम्नोस्पर्म	b	संवहनी बंडल मौजूद होते हैं
3	टेरिडोफाइट्स	c	सच्चे बीज मौजूद होते हैं

- 1-b, 2-c, 3-a
- 1-c, 2-a, 3-a
- 1-c, 2-b, 3-a
- 1-a, 2-b, 3-c

Q.No: 22 The process by which a solid changes directly into gas is called:

- A Evaporation
- B Condensation
- C Melting
- D Sublimation

वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, कहलाती है:

- वाष्पीकरण
- संक्षेपण
- गलन
- उर्ध्वपातन

The following question consists of two statements one labeled as "Assertion" and the other as "Reason". You have to examine these two statements carefully and select the correct answer to the question from the given options.

निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं जिनमें से एक को "अधिकथन" और दूसरे को "व  
कथनों की सावधानीपूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही

Q.No: 23

**Assertion: (A)** Ozone gas in the layer of atmosphere prevents ultraviolet radiations of the sun from reaching the earth.

**अधिकथन: (A)** वायुमंडल की परत में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों  
**कारण: (R)** ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है।

**Reason : (R)** ozone layer is found in the stratosphere.

- A A is false but R is true.
- B Both A and R are false.
- C Both A and R are true.

ए असत्य है लेकिन आर सत्य है।  
ए और आर दोनों असत्य हैं  
ए और आर दोनों सत्य हैं

D **A is true but R is false.**

ए सत्य है लेकिन आर असत्य है।

Q.No: 24 Which of the following is not a vector quantity?

- A **Distance**
- B **Velocity**
- C **Force**
- D **Displacement**

निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है?

- दूरी
- वेग
- बल
- विस्थापन

**Direction:** The following question consists of two statements one labeled as "Assertion" and the other as "Reason". You have to examine these two statements carefully and select the correct answer to the question from the given options.

निर्देश: निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं जिनमें से एक को "अभिकथन" और दूसरे व आपको इन दोनों कथनों की सावधानीपूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में

Q.No: 25

Assertion: (A) Rays, salmon, eels and tuna belong to the class of fishes.

Reason: (R) They have two chambered heart and they have wings instead of limbs.

- A **(R) is true explanation of (A)**
- B **(R) is the wrong explanation of the assertion(A)**
- C **(A) is true and (R) is false**
- D **(R) is true and (A) is false**

अभिकथन: (A) रे, सैल्मन, ईल और टूना मछलियों के वर्ग से संबंधित हैं।

कारण: (R) उनके पास दो कक्षीय हृदय हैं और उनके पास अंगों के बजाय पंख हैं।

- (R) (A) की सही व्याख्या है।**
- (R) अभिकथन (A) की गलत व्याख्या है।**
- (A) सत्य है और (R) गलत है**
- (R) सत्य है और (A) गलत है**

Q.No: 26 When is World Environment Day celebrated.

- A **5 july**
- B **5 june**
- C **6 june**
- D **24 june**

विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?

- 5 जुलाई**
- 5 जून**
- 6 जून**
- 24 जून**

Q.No: 27 A \_\_\_\_\_ contains 25-35% carbon.

- A **Peat**
- B **Lignite**
- C **Bituminous**
- D **Anthracite**

\_\_\_\_\_ में 25-35% कार्बन होता है।

- पीट
- लिग्नाइट
- बिटुमिनस
- एन्थ्रेसीट

Q.No: 28 Which among the following member belongs to the phyla Gymnosperm?

- A **cones and spikes**
- B **ferns and liverworts**
- C **beans and nuts**
- D **cycad and pines**

निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य फ़ाइला जिम्नोस्पर्म से संबंधित है?

- शंकु और स्पाइक्स
- फर्न और लिवरवॉर्ट्स
- सेम और सुपारी
- साइकैड और पाईस

Q.No: 29 The universal law of gravitation is stated by \_\_\_\_\_.

- A **Copernicus**
- B **Kepler**
- C **Galileo**
- D **Newton**

गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम \_\_\_\_\_ द्वारा बताया गया है।

- कोपरनिकस
- केपलर
- गैलीलियो
- न्यूटन

Q.No: 30 The air always moves from

- A **Low to high pressure area**
- B **Constant pressure area**
- C **High pressure to low pressure area**
- D **Ideal pressure area**

हवा हमेशा कहीं से चलती है

- निम्न से उच्च दाब क्षेत्र
- निरंतर दबाव क्षेत्र
- उच्च दबाव से निम्न दबाव क्षेत्र के लिए हैं
- आदर्श दबाव क्षेत्र

Q.No: 31 Invertebrate are divided into \_\_\_\_\_ major phyla.

- A **5**
- B **12**
- C **8**
- D **9**

अकशेरुकीय को \_\_\_\_\_ प्रमुख फ़ाइला में विभाजित किया गया है।

- 5**
- 12**
- 8**
- 9**

Q.No: 32 A \_\_\_\_\_ is used as fuel for stoves in houses.

- A Paraffin wax
- B Petrol
- C Kerosene
- D Coal

\_\_\_\_\_ का उपयोग घरों में चूल्हे के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है।

- पैराफिन मोम
- पेट्रोल
- केरोसिन
- कोयला

Q.No: 33 An \_\_\_\_\_ is used to relieve heartburn, indigestion or an upset stomach.

- A Antihistaminicos
- B Antipyretic
- C Antacid
- D Analgesic

\_\_\_\_\_ का उपयोग दिल की जलन, अपच या पेट की खराबी को दूर कर

- एंटीहिस्टामिनिकोस
- ज्वरनाशक
- एंटासिड
- एनाल्जेसिक

Directions: The following question consists of two statements one labeled as "Assertion" and the other as "Reason". You have to examine these two statements carefully and select the correct answer to the question from the given options.

निर्देश: निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं जिनमें से एक को "अभिकथन" और दूसरे को "कारण" मानें। आपको इन दोनों कथनों की सावधानीपूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में

Q.No: 34

Assertion: (A) The father of the green revolution was Norman Borlaug.

अभिकथन: (A) हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे।

Reason : (R) he implemented new high yielding wheat seeds in Punjab that increased its productivity to many folds.

कारण : (R) उन्होंने पंजाब में नए उच्च उपज देने वाले गेहूँ के बीजों को लागू किया

- A A is true but R is false.
- B Both A and R are false
- C A is false but R is true.
- D Both A and R are true

- ए सत्य है लेकिन आर असत्य है।
- ए और आर दोनों असत्य हैं
- ए असत्य है लेकिन आर सत्य है।
- ए और आर दोनों सत्य हैं

Q.No: 35 \_\_\_\_\_ or continuous noise has adverse effects on the people of society.

- A Very loud
- B Disturbed
- C Fast
- D Slow


\_\_\_\_\_ या लगातार शोर का समाज के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- बहुत जोर से
- परेशान
- फास्ट
- धीमा


Select the correct mirror of the given figure when the mirror is placed on the right of the figure.

दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को आकृति की दाईं 3


Q.No: 36




A





B



C



D



Q.No: 37 Choose the correct mirror image of this combination- IKLJ.

इस संयोजन की सही दर्पण छवि चुनें- IKLJ

- A IJKL
- B IKJI
- C KJLI
- D JKLI

- IJKL
- IKJI
- KJLI
- JKLI

Q.No: 38 Choose the correct mirror image of this combination- FDAS24U.

- A UƆ27ƆA
- B FƆA2ƆU
- C DƆA2ƆU
- D DƆA2ƆU

इस संयोजन की सही दर्पण छवि चुनें- FDAS24U

- UƆ27ƆA
- FƆA2ƆU
- DƆA2ƆU
- DƆA2ƆU

Q.No: 39 Introducing a man a girl said " He is the father of the brother of my uncle." How is the man related to the girl?

- A **Father**
- B **Daughter**
- C **Uncle**
- D **Grandfather**

एक आदमी का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा "वह मेरे चाचा के भाई के पिता

- पापा
- बेटी
- चाचा
- दादा

In the following question, a series of letters is given. Some letters have been removed in these series, and they are in the options given below the series in the same order as they should be. Study the given series carefully out of the four alternatives given below, and find the one that best fits in place of the missing letter of the series.

Q.No: 40

b c c \_ b c \_ a b c c \_ b \_ c a

- A **a c a c**
- B **a c c a**
- C **b a b c**
- D **a c a b**

निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है। इन श्रृंखलाओं में कुछ अक्षर विकल्पों में उसी क्रम में हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। नीचे दिए गए चार विकल्पों में श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के स्थान पर वह विकल्प खोजें जो सबसे उपयुक्त हो।

b c c \_ b c \_ a b c c \_ b \_ c a

- a c a c
- a c c a
- b a b c
- a c a b

Select the Lettered pair that has the same relationship as given in the question:

Q.No: 41

Chaff : Wheat

- A **Blood : Vein**
- B **Bone : Flesh**
- C **Dregs : Wine**
- D **Rubbish : House**

उस अक्षर युग्म का चयन करें जिसका संबंध प्रश्न में दिए गए समान संबंध से है:

भूसा : गेहूं

- रक्त : शिरा
- हड्डी : मांस
- ड्रेग्स : वाइन
- कूड़ाकरकट : मकान

Q.No: 42 A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son. How is B related to F's child?

- A **Grandfather or Grandmother**
- B **Cousin**
- C **Nephew**
- D **Aunt**

A, B का भाई है, C, A की माता है, D, C का पिता है, F, A का पुत्र है। B, F

- दादा या दादी
- कजिन
- भतीजा
- चाची

Given question has main statement followed by four statements. Choose the ordered pair of statements, where the first statement implies the second, and the two statements are logically consistent with the main statement.

The new is either fabricated or genuine

Q.No: 43

- A. The new is fabricated
- B. The new is not fabricated
- C. The new is genuine
- D. The new is not genuine

- A **DA**
- B **AB**
- C **BD**
- D **AC**

दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद चार कथन हैं। कथनों का क्रमिक युग्म और दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं।

नया या तो मनगढ़ंत है या असली

- A. नया गढ़ा गया है
- B. नया गढ़ा नहीं गया है
- C. नया असली है
- D. नया असली नहीं है

- DA
- AB
- BD
- AC

Q.No: 44 Select the Lettered pair that has the same relationship as given in the question:

Hillock : Mountain

- A **Grass : Tree**

उस अक्षर युग्म का चयन करें जिसका संबंध प्रश्न में दिए गए समान संबंध से है:

पहाड़ी : पहाड़

घास : पेड़

- B Hare : Animal  
C Ant : Elephant  
D Bush : Forest

- खरगोश : पशु  
चींटी : हाथी  
झाड़ी : वन

Q.No: 45 M is brother of D. R is son of D. F is father of M and T is mother of R. How is D related to T?

- A Son  
B Daughter  
C Brother  
D Husband

- M, D का भाई है। R, D का पुत्र है। F, M का पिता है और T, R की माता है।  
बेटा  
बेटी  
भाई  
पति

Q.No: 46 Choose the correct mirror image of this combination-KJBU151J.

- A UBIK151J  
B UBIK151J  
C BK151J  
D UBIK151J

- इस संयोजन की सही दर्पण छवि चुनें- KJBU151J  
UBIK151J  
UBI151JK  
BK151J  
UBI151JK

Given question has main statement followed by four statements. Choose the ordered pair of statements, where the first statement implies the second, and the two statements are logically consistent with the main statement.

The fee is collected by either the local authority or by the federal government

- Q.No: 47 A. The fee is collected by the local authority  
B. The fee is not collected by the local authority  
C. The fee is collected by federal government  
D. The fee is not collected by federal government

- A DA  
B AC  
C BD  
D AB

दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद चार कथन हैं। कथनों का क्रमित युग्म और दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं।

शुल्क स्थानीय प्राधिकरण या संघीय सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है

- A. शुल्क स्थानीय प्राधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता है  
B. शुल्क स्थानीय प्राधिकारी द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है  
C. शुल्क संघीय सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है  
D. शुल्क संघीय सरकार द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है

- DA  
AC  
BD  
AB

Q.No: 48 Select the letter-cluster that can replace the question mark (?) in the following series.

BCD, DEF, FGH, HIJ, ?

- A HJH  
B IJI  
C JHJ  
D JKL

निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर-समूह का चयन करें जो प्रश्न चिह्न (?) को प्रतिर

BCD, DEF, FGH, HIJ, ?

- HJH  
IJI  
JHJ  
JKL

In the following question, a series of letters is given. Some letters have been removed in these series, and they are in the options given below the series in the same order as they should be. Study the given series carefully out of the four alternatives given below, and find the one that best fits in place of the missing letter of the series.

Q.No: 49

b c \_ b \_ c \_ b \_ c c b

- A b c b c  
B c b b c  
C b b c c  
D c b c b

निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है। इन श्रृंखलाओं में कुछ अक्षर विकल्पों में उसी क्रम में हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। नीचे दिए गए चार विकल्पों में श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के स्थान पर वह विकल्प खोजें जो सबसे उपयुक्त हो।

b c \_ b \_ c \_ b \_ c c b

- b c b c  
c b b c  
b b c c  
c b c b

उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। अतः पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की र

Q.No: 50 Amit is the great grandfather of Chandan's only son, who is the husband of Puspa ,whose father-in-law is the husband of Bidya. How is Bidya related to Amit?

- A Daughter  
B Grand-daughter-in-law  
C Daughter-in-law  
D Granddaughter

अमित चंदन के इकलौते बेटे का परदादा है, जो पुष्पा का पति है, जिसका ससुर हि

- बेटी  
पोते की पत्नी  
बहू  
पोती



Q.No: 51 Select the option that is related to the third word in the same way as the second pair is related to the first pair.

RAW : India :: CIA : ?

- A England
- B Japan
- C China
- D America

उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा :

RAW : भारत :: CIA : ?

- इंग्लैंड
- जापान
- चीन
- अमेरिका

Q.No: 52 Choose the correct mirror image of this combination- EWSFGVJH354961IU1643CGH.

- A HGCCE191U1189123EHVGTW2E
- B HGCCE191U1189123EHVGTW2E
- C HGCCE191U1189123EHVGTW2E
- D HGCCE191U1189123EHVGTW2E

इस संयोजन की सही दर्पण छवि चुनें- EWSFGVJH354961IU1643CGH

- HGCCE191U1189123EHVGTW2E
- HGCCE191U1189123EHVGTW2E
- HGCCE191U1189123EHVGTW2E
- HGCCE191U1189123EHVGTW2E

Q.No: 53 A is brother of B and C. D is mother of C. If E is father of A, then which of the following is definitely not true?

- A D is wife of E
- B A is son of D
- C E is father of B
- D B is son of E

A, B और C का भाई है। D, C की माता है। यदि E, A का पिता है, तो निम्नलि

- D, E की पत्नी है
- A, D का पुत्र है
- E, B का पिता है
- B, E का पुत्र है

Given question has main statement followed by four statements. Choose the ordered pair of statements, where the first statement implies the second, and the two statements are logically consistent with the main statement.

The account will be operated by either the company or the manager

- Q.No: 54
- A. The account was operated by company
  - B. The account was not operated by the company
  - C. The account was operated by the manager
  - D. The account was not operated by the manager

- A AB
- B DA
- C CA
- D BD

दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद चार कथन हैं। कथनों का क्रमिक युग्म और दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं।

खाते का संचालन कंपनी या प्रबंधक द्वारा किया जाएगा

- A. खाता कंपनी द्वारा संचालित किया गया था
- B. खाता कंपनी द्वारा संचालित नहीं किया गया था
- C. खाते का संचालन प्रबंधक द्वारा किया गया था
- D. खाता प्रबंधक द्वारा संचालित नहीं किया गया था

- AB
- DA
- CA
- BD

Q.No: 55 Select the option that is related to the third word in the same way as the second pair is related to the first pair.

Manipur : Imphal :: Mizoram : ?

- A Aizawl
- B Shillong
- C Kohima
- D Gangtok

उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा :

मणिपुर : इंपाल :: मिजोरम : ?

- आइजोल
- शिलांग
- कोहिमा
- गंगटोक

Q.No: 56 The amount (in Rs) received at 10% per annum compound interest after 3 yrs is Rs 1,19,790. What was the principal?

- A 80000
- B 75000
- C 1,00,000
- D 90000

10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित मिश्रधन 1,19,790

- 80000
- 75000
- 1,00,000
- 90000

Q.No: 57 In a marriage ceremony there are 500 guests in which 28% are males and 64% are females and the rest are children. Find the total number of children in the party?

- A 40
- B 45
- C 50
- D 55

एक विवाह समारोह में 500 अतिथि हैं जिनमें 28% पुरुष और 64% महिलाएं कीजिए?

- 40
- 45
- 50
- 55

Q.No: 58	A man borrowed a some of Rs. 42,564 from a bank and promises to pay the amount in 3 annual equal installments at the rate of 4% per annum compound annually. Find the value of each installment. (approx. value)	एक आदमी ने एक बैंक से 42,564 की राशि उधार ली और 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान : प्रत्येक किस्त का मूल्य (लगभग) ज्ञात कीजिए?
A	Rs. 17822	17,822 रुपये
B	Rs. 15672	15672 रुपये
C	Rs. 16782	16,782 रुपये
D	Rs. 15338	15,338 रुपये
Q.No: 59	After selling a book at Rs. 700, a man gets a profit of Rs. 500. What is the cost price of the book?	एक पुस्तक को 700 रूपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 500 रूपये का लाभ प्राप्त
A	Rs. 300	300 रूपये
B	Rs. 200	200 रूपये
C	Rs. 250	250 रूपये
D	Rs. 120	120 रूपये
Q.No: 60	The average weight of a metal piece as calculated by of 7 different experiments is 53.735 gm. The average of the first three experiments is 54.007 gm, of the fourth is 0.006 gm less than the fifth, while the average of the sixth and seventh experiment was 0.015 gm less than the average of the first three. Find the weight of the body obtained by the fourth experiment.	7 अलग-अलग प्रयोगों के औसत से गणना की गई एक धातु के टुकड़े का वजन औसत 54.007 ग्राम है, चौथे का पांचवें से 0.006 ग्राम कम है, जबकि छठे से 0.015 ग्राम कम था। चौथे प्रयोग द्वारा प्राप्त धातु के टुकड़े का वजन ज्ञात करें
A	54.513 gm	54.513 ग्राम
B	53.067 gm	53.067 ग्राम
C	51.717 gm	51.717 ग्राम
D	53.073 gm	53.073 ग्राम
Q.No: 61	The average age of 8 men is increased by 2 years when two of them whose ages are 21 years and 23 years are replaced by two new men. The average age (in years) of the two new men is:	8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से दो जिनकी आयु 21 व 23 हैं। दो नये पुरुषों की औसत आयु (वर्षों में) है:
A	30	30
B	20	20
C	40	40
D	50	50
Q.No: 62	The marked price of an article is Rs. 840. A shopkeeper gives a discount of 15% on the marked price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of the article?	किसी वस्तु का अंकित मूल्य रु. 840 है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य से 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
A	Rs. 580	580 रुपये
B	Rs. 640	640 रुपये
C	Rs. 540	540 रुपये
D	Rs. 600	600 रुपये
Q.No: 63	Anita bought a phone for Rs 14,500 and spent Rs 500 for the accessories of the phone. After six months she sold this phone for Rs 10,000. Find the percentage of loss.	अनीता ने 14,500 रुपये में एक फोन खरीदा और फोन के एक्सेसरीज के लिए 500 रुपये खर्च किए। छह महीने बाद उसने इस फोन को 10,000 रुपये में बेच दिया। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें
A	18.18%	18.18%
B	33.33%	33.33%
C	22.5%	22.5%
D	20%	20%
Q.No: 64	An alloy contains 26% of copper. What quantity of alloy is required to get 260 g of copper?	एक मिश्रधातु में 26% तांबा होता है। 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए मिश्रधातु की आवश्यकता होती है?
A	1500 gm	1500 ग्राम
B	1200 gm	1200 ग्राम
C	1000 gm	1000 ग्राम
D	800 gm	800 ग्राम
Q.No: 65	A 20% profit is made on the sale of an article. What is the new percentage of profit or loss if the cost price become 3 times and the selling price gets doubled?	एक वस्तु की बिक्री पर 20% का लाभ होता है। यदि लागत मूल्य 3 गुना हो जाता है और बिक्री मूल्य दोगुना हो जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें
A	25% loss	25% हानि
B	20% loss	20% हानि
C	20% profit	20% लाभ

D 25% profit

25% लाभ

Q.No: 66 A principal sum lent at compound interest amounts to Rs. 3456 in 3 years and Rs.4147.20 in 4 years when interest is compounded annually. What is the rate of interest?

एक मूलधन की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्ष में Rs. 3456 और 4 वर्ष में Rs. 4147.20 हो  
ब्याज दर क्या है?

- A 22%  
B 20%  
C 18%  
D 16%

- 22%  
20%  
18%  
16%

Q.No: 67 75% of a number is 15 more than two – third of that number. What is the number.

एक संख्या का 75% उस संख्या के दो - तिहाई से 15 अधिक है। तो संख्या ज्ञा

- A 170  
B 160  
C 180  
D 190

- 170  
160  
180  
190

What will come in place of question mark (?) in the following expression?

निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्न चिह्न ( ? )

Q.No: 68 48% of  $\frac{5}{6}$  of 125 + 52% of  $\frac{10}{13}$  of 175 +  $\sqrt{?}$  = 124

125 का  $\frac{5}{6}$  का 48 % + 175 का  $\frac{10}{13}$  व

- A 16  
B 15  
C 4  
D 12

- 16  
15  
4  
12

Q.No: 69 20 litres of mixture contains 20% of alcohol and the rest water. If 4 litres of water be mixed with it, the percentage of alcohol in the new mixture will be

20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि इसमें 4 लीटर पान  
प्रतिशत होगा :

- A  $\frac{50}{3}\%$   
B  $\frac{55}{3}\%$   
C  $\frac{60}{3}\%$   
D  $\frac{45}{3}\%$

- $\frac{50}{3}\%$   
 $\frac{55}{3}\%$   
 $\frac{60}{3}\%$   
 $\frac{45}{3}\%$

Q.No: 70 A sum amounts to Rs 965 at 10% per annum in 2 years, compounded annually. Find the sum.

वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में एक राशि 96

- A Rs.215.261  
B Rs.797.520  
C Rs.517.234  
D Rs.214.481

- Rs.215.261  
Rs.797.520  
Rs.517.234  
Rs.214.481

In the question, assuming the given statements to be true, find which of the two conclusions I and II given below them is/are followed.

Statements:

I. All tickets are trains.

II. Some trains are passengers.

Conclusions:

I. All tickets are passengers.

II. Some trains are tickets.

- A Both conclusions I and II are true  
B Neither conclusion I nor II is true  
C Only conclusion I is true  
D Only conclusion II is true

प्रश्न में, दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, ज्ञात कीजिए कि उनके नीचे दिए गए

कथन:

I. सभी टिकट ट्रेन हैं।

II. कुछ ट्रेन यात्री हैं।

निष्कर्ष:

I. सभी टिकट यात्री हैं।

II. कुछ ट्रेन टिकट हैं।

निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है

केवल निष्कर्ष I सत्य है

केवल निष्कर्ष II सत्य है

Q No: 72 Which of the following will come in the place of question mark?

निम्नलिखित में से क्या पश्चात्तक चिह्न के स्थान पर आगा ?

cccbb - aa - cc - bbbaa - c

- A **acbc**
- B  **baca**
- C  **baba**
- D  **acba**

cccbb - aa - cc - bbbaa - c

- acbc**
- baca**
- baba**
- acba**

Q.No: 73 There are six friends-Santu, Kaantu, Mintu, Akku, Rinku and Chintu. Santu is younger than Kaantu but elder than Rinku. Mintu is the eldest. Akku is a younger than Kaantu and elder than Santu. Rinku is elder than Chintu. Who is the youngest persons?

- A **Akku**
- B **Rinku**
- C **Chintu**
- D **Kaantu**

छह दोस्त हैं-संतु, कंटू, मिंग्टू, अक्कू, रिकू और चिंटू। संतु, कंटू से छोटा है लेकिन छोटा और संतु से बड़ा है। रिकू चिंटू से बड़ा है। सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन

- अक्कू**
- रिकू**
- चिंटू**
- कान्तू**

Q.No: 74 Which of the following will come in the place of question mark?

p\_r\_pq\_p\_qr\_

- A **qqprs**
- B **pqrrp**
- C **qprpp**
- D **rpqrp**

निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा ?

p\_r\_pq\_p\_qr\_

- qqprs**
- pqrrp**
- qprpp**
- rpqrp**

Q.No: 75 Five people namely, Vishal, Neha, Vikas, Sakshi and Vivek, are sitting in a row facing north. Vikas is sitting to the right of Neha. Neha and Vivek are adjacent to each other. Vishal is on extreme left end. Sakshi is not sitting on any extreme end. Neither Vivek nor Sakshi is sitting adjacent to Vishal. Who is sitting second to the left of Vikas?

- A **Neha**
- B **Sakshi**
- C **Vishal**
- D **Vivek**

पांच व्यक्ति, विशाल, नेहा, विकास, साक्षी और विवेक, एक पंक्ति में उत्तर दिशा क विकास नेहा के दाएँ ओर बैठा है। नेहा और विवेक एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। साक्षी किसी भी छोर पर नहीं बैठी है। ना ही विवेक ना ही साक्षी विशाल के बगल में विकास के बाएँ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?

- नेहा**
- साक्षी**
- विशाल**
- विवेक**

Find the missing term.

Q.No: 76

101	215	112
12	15	?
43	10	84

- A **14**
- B **13**
- C **15**
- D **16**

लुप्त पद ज्ञात कीजिए।

101	215	112
12	15	?
43	10	84

- 14**
- 13**
- 15**
- 16**

Q.No: 77 If in a certain code, EARTH is written as FZSSI, which word would be coded as XZUDS?

- A **WAVES**
- B **YXVET**
- C **WATER**
- D **WAVER**

उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। अतः पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जायेगी। यदि किसी कूट भाषा में, EARTH को FZSSI के रूप में लिखा गया है, तो किस

- WAVES**
- YXVET**
- WATER**
- WAVER**

Q.No: 78 In a code language, NEEDLE is written as MFDEKF. How will HAMMER be written in the same language?

- A **IBLNDS**
- B **GBLNDS**
- C **GALNDS**
- D **GBLNFT**

किसी कूट भाषा में, NEEDLE को MFDEKF लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में

- IBLNDS**
- GBLNDS**
- GALNDS**
- GBLNFT**

In the question given below, some statements are given followed by few conclusions. You have to consider the statements to be true even they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusions, if any follow from the given statements.

**Statements:**

All squares are circles.

Q.No: 79 All circles are units.

No circle is a meter.

**Conclusions:**

I. Some units are squares.

II. Some squares being meters is a possibility.

A **both conclusion I and II follow**

B **only conclusion I follows**

C **only conclusions II follows**

D **either conclusion I or II follows**

Find the missing term.

Q.No: 80

H	L	K	F
96		?	

- A **81**
- B **66**
- C **110**
- D **72**

नीचे दिए गए प्रश्न में, कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आप तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से करता है।

**कथन:**

सभी वर्ग वृत्त हैं।

सभी वृत्त इकाइयाँ हैं।

कोई वृत्त मीटर नहीं है।

**निष्कर्ष:**

I. कुछ इकाइयाँ वर्ग हैं।

II. कुछ वर्ग के मीटर होने की संभावना है।

निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं

केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है

केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है

या तो निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है

लुप्त पद ज्ञात कीजिए।

H	L	K	F
96		?	

- A **81**
- B **66**
- C **110**
- D **72**

Q.No: 81 In a code language, 54831 is coded as 63922. What will be the code for 86274 in that language?

- A **95185**
- B **95365**
- C **77185**
- D **75365**

यदि कूट भाषा में, 54831 को 63922 के रूप से कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी

- A **95185**
- B **95365**
- C **77185**
- D **75365**

Q.No: 82 In a row of the fifty students, A is the fourteenth from the left end the B is the 10th from the right end. How many students are there between A and C if C is fourth to the left of B?

- A **22**
- B **35**
- C **32**
- D **30**

पचास छात्रों की एक पंक्ति में, A बाएं छोर से चौदहवां है और B दाएं छोर से 10 B की बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो A और C के बीच कितने छात्र हैं?

- A **22**
- B **35**
- C **32**
- D **30**

Q.No: 83 In a row, A is 17<sup>th</sup> from left and B is 20<sup>th</sup> from right. When the interchange their position respectively. Then A becomes 27<sup>th</sup> from left. Then what will be B's position from right after interchanging?

- A **27**
- B **30**
- C **23**
- D **35**

एक पंक्ति में A बाएं छोर से 17वां है और B दाएं से 20वां 27वां हो जाता है। तो आपस में स्थान बदलने के बाद दायें

- A **27**
- B **30**
- C **23**
- D **35**

Q.No: 84 In a certain code RAIN is written as TCKP. How is CLOUD written in that code?

- A **FNQWE**
- B **EMQWF**
- C **ENRWF**
- D **ENQWF**

यदि किसी निश्चित कूट में, RAIN को लिखते हैं TCKP. उस कूट में, CLOUD

- A **FNQWE**
- B **EMQWF**
- C **ENRWF**
- D **ENQWF**

Q.No: 85 Find the missing term.

लुप्त पद ज्ञात कीजिए।

10	20	30
5	10	15
12	24	?

- A 12  
B 48  
C 24  
D 36

Simplify:

Q.No: 86  $[4^3 \times 5^4] \div 4^5 = ?$

- A 35.6015  
B 39.0625  
C 30.0925  
D 29.0825

10	20	30
5	10	15
12	24	?

- 12  
48  
24  
36

सरलीकृत करे:

$[4^3 \times 5^4] \div 4^5 = ?$

- 35.6015  
39.0625  
30.0925  
29.0825

Q.No: 87  $[2^{n+4} - 2 \times 2^n / 2 \times 2^{(n+3)}] + 2^{-3}$  is equal to

- A  $2^{n+1}$   
B  $(9/8 - 2^n)$   
C  $(-2^{n+1} + 1/8)$   
D 1

$[2^{n+4} - 2 \times 2^n / 2 \times 2^{(n+3)}] + 2^{-3}$  बराबर है

- $2^{n+1}$   
 $(9/8 - 2^n)$   
 $(-2^{n+1} + 1/8)$   
1

Q.No: 88 The sum of the ages of A and B is four-thirds the age of C. The age of B is two-thirds the age of C. If the sum of the ages of the three persons is 35 years, find the age of B. (in years)

- A 15  
B 10  
C 20  
D 18

A और B की आयु का योग C की आयु का चार-तिहाई है। B की आयु C की 3/2 योग 35 वर्ष है, तो B की आयु ज्ञात करें (वर्षों में)

- 15  
10  
20  
18

What value would come in place of the question mark (?) in the following equation?

Q.No: 89  $\frac{3}{8}$  of  $\frac{4}{9}$  of 1575 +  $(\sqrt{?}) = 66.98 + 32\%$  of 786

- A 56  
B 36  
C  $(56)^2$   
D  $\sqrt{56}$

निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर क्या मान आया?

1575 का  $\frac{4}{9}$  का  $\frac{3}{8}$  +  $(\sqrt{?}) = 66.98 + 786$  का 32 %

- 56  
36  
 $(56)^2$   
 $\sqrt{56}$

Q.No: 90 If the radius of a circle is  $\frac{14}{\sqrt{\pi}}$  cm, then the area of the circle is equal to?

- A 196  
B 121  
C 169  
D 225

यदि एक वृत्त की त्रिज्या  $\frac{14}{\sqrt{\pi}}$  सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर

- 196  
121  
169  
225

Simplify-

Q.No: 91  $\frac{6^{3a+2} \times 1296^{\frac{a}{4}}}{6^{2a} \times 36^a}$

- A 1  
B  $\frac{1}{6}$

सरल कीजिए-

$\frac{6^{3a+2} \times 1296^{\frac{a}{4}}}{6^{2a} \times 36^a}$

- 1  
 $\frac{1}{6}$

C 36  
D 6

36  
6

Q.No: 92 Find the area of a triangle whose sides are 12 cm, 16cm and 20 cm.

A 144 sq cm.  
B 96 sq cm.  
C 108 sq cm.  
D 72 sq cm.

एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएँ 12 सेमी, 16 सेमी और 20

144 वर्ग सेमी  
96 वर्ग सेमी  
108 वर्ग सेमी  
72 वर्ग सेमी

Q.No: 93 Which of the following is divisible by 6?

A 99752  
B 88265  
C 22896  
D 643132

निम्नलिखित में से कौन 6 से विभाज्य है?

99752  
88265  
22896  
643132

Q.No: 94 If  $5x + 5(2 - x) + 10 = 4x - 6$  then value of x is :

A 8  
B 2  
C 6.5  
D 4.5

यदि  $5x + 5(2 - x) + 10 = 4x - 6$  तो x का मान है:

8  
2  
6.5  
4.5

Q.No: 95 Which of the following is divisible by 22?

A 6782  
B 8673  
C 2024  
D 9826

निम्नलिखित में से कौन 22 से विभाज्य है?

6782  
8673  
2024  
9826

Q.No: 96 Which of the following is divisible by 24?

A 7913400  
B 987452  
C 778912  
D 652678

निम्नलिखित में से कौन 24 से विभाज्य है?

7913400  
987452  
778912  
652678

Q.No: 97 On M.G Road, three consecutive traffic lights change after 18, 63 and 72 seconds, respectively. If the lights are first switched on at 10:00 A.M. sharp, at what time will they change simultaneously?

A 10 : 08 : 24  
B 10 : 08 : 04  
C 10 : 08 : 44  
D 10 : 08 : 34

एमजी रोड पर लगातार तीन ट्रैफिक लाइट क्रमशः 18, 63 और 72 सेकंड के बाद यदि पहली बार सुबह 10:00 बजे लाइट चालू की जाती है, तो वे किस समय एक

10 : 08 : 24  
10 : 08 : 04  
10 : 08 : 44  
10 : 08 : 34

Q.No: 98 Find the greatest number less than 900, which is divisible by 8, 12, and 28.

A 835  
B 840  
C 845  
D 850

900 से कम, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिये जो कि, 8, 12, और 28 से विभा

835  
840  
845  
850

Q.No: 99 Find the largest number that can divide 513,783 and 1107

A 18  
B 27  
C 71  
D 37

वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 513,783 और 1107 को विभाजित कर स

18  
27  
71  
37

Solve the following pairs of equations for x and y respectively.

Q.No: 100

$12x - 10y - 2 = 0$  and  $10x - 10y + 20 = 0$

© MPESB. All rights reserved. समीकरणों के निम्नलिखित युग्मों को क्रमशः x और y के लिए हल करें।

$12x - 10y - 2 = 0$  and  $10x - 10y + 20 = 0$

A 13, 11  
B 10, 12  
C 12, 10  
D 11, 13

13, 11  
10, 12  
12, 10  
11, 13

mpcareer.in